### JBM Auto Limited

Plot No. 133, Sector 24, Faridabad - 121 005 (Haryana)

T:+91-129-4090200 F:+91-129-2234230 W:www.jbm-group.com

E: secretarial.jbma@jbmgroup.com

JBMA/SEC/2023-24/46 14<sup>th</sup> October, 2023



### **Listing Department**

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai - 400001
Script Code: 532605

The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051
Symbol: JBMA

Sub:

Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 30 read with Regulation 47 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref:

Newspaper Publications in Form INC-26 regarding shifting of Registered Office of the Company

Dear Sir/ Madam,

This is to inform that the Company had taken member's approval through Special Resolution in the 27<sup>th</sup> Annual General Meeting held on 16<sup>th</sup> September, 2023 for shifting of Registered Office of the Company from the NCT of Delhi to State of Haryana.

In continuation of the same and as per applicable provisions of Companies Act, 2013, the Company has published Form No. INC-26 in the Regional language newspaper i.e. 'Business Standard' Hindi & English, Delhi Edition in the state in which the registered office of the Company is presently situated.

With reference to above, please find enclosed herewith relevant clippings of the newspapers published on 14<sup>th</sup> October, 2023.

The information contained in this disclosure is also available on the Company's website <a href="www.jbmgroup.com">www.jbmgroup.com</a>.

We request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For JBM Auto Limited

Sanjeev Kumar Company Secretary & Compliance Officer

Acs: 18087 Encl.: As above ABUTO LIMIT OTUM

Corp. Office: Plot No. 9, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon- 122003 (Hr.) T:+91-124-4674500, 4674550, F: +91-124-4674599

Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019 T: +91 11 26427104, F: +91 11 26427100

CIN: L74899DL1996PLC083073



### **U.P. State Road Transport Corporation** Parivahan Bhavan, Tehri Kothi, 6 M.G. Marg, Lucknow-226001 (U.P.)

### **E-TENDER NOTICE**

FOR THE ISSUANCE OF UNNAMED ACCIDENTAL GROUP INSURANCE POLICY FOR CONTRACTUAL DRIVERS AND CONDUCTORS

U.P. State Road Transport Corporation hereby invite e-tenders for the ISSUANCE OF UNNAMED ACCIDENTAL GROUP INSURANCE POLICY OF Rs. 5,00,000.00 (PER PERSON) FOR ±34000 CONTRACTUAL DRIVERS AND CONDUCTORS from Insurers that are empanelled with INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (IRDA) and having a minimum of five (5) years of ACCIDENTAL GROUP INSURANCE business experience in India. xperience in Indià.

Prescribed tender forms containing all relevant details, terms a anditions can be downloaded from website of Govt. e-portal etender.up.nic.in. DESCRIPTION DATE AND TIME

17.11.2023 at 16:00 hrs. Opening of e-Tender document Detailed Bill of quantity, eligibility for participating in tender, other terms nd conditions of the tender and calendar/timing of the tender may be seen n Govt. e-portal etender.up.nic.in

Please do visit etender.up.nlc.in from time to time before last date of mission of tender for any possible amendment/corrigendum/addendum.

For any query/clarification regarding submission of e-tender vendors y call on following helpline numbers of NIC:0522-2286808 (2) 0522-2286809 (3) 0522-4130303 (4) 0522-2298813

### JBM AUTO LIMITED

CIN: L74899DL1996PLC083073 Regd. Office: 601, Hernkunt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi - 110019 Ph.: 011-26427104; Fax: 011-26427100 E-mall: jbma.investor@jbmgroup.com Website: www.jbmgroup.com

e-Tender on e-portal



18.10.2023 to 17.11.2023

up to 15:00 hrs.

FORM NO. INC-26 [Pursuant to Rule 30 the Companies (incorporation) Rules, 2014] BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI In the matter of Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the

AND In the matter of JBM AUTO LIMITED (CIN: L74899DL1996PLC083073) having its registered office at 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, NewDelhi - 110019

Companies (Incorporation) Rules, 2014

### .Applicant Company

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make ar application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of alteration of Clause II of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting held on Saturday, September 16, 2023 to enable the Company to change its Registered Office from the "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) or by filing investor complaint form or cause to delivered or send by registered post of his/ her objections supported by an affidavit stating the nature of his/ her interest and ground(s) of opposition to the Regional Director, Northern Region Ministry of Corporate Affairs, at the address is B-2 Wing, 2rd Floor, PT. Deendaya Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within 14 days from the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its registered office a the address mentioned below

601, Hemkunt Chambers 89, Nehru Place, New Delhi-110019

For and on behalf of the Applican JBM Auto Limited Sanjeev Kuma Company Secretary & Compliance Office M No. A18087

Date: October 13, 2023 Place: Delhi

## AYOKI MERCHANTILE LIMITED

CIN: L17120MH1985PLC034972

Registered Office: Laxml Commercial Centre, Room No. 405, 4th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (W), Mumbai - 400028, Maharashtra

Corporate Office: 11, Windward Business Park, Opp. Aadicura Hospital, Jetalpura Road, Vadodara - 390 007, Gujarat, India

Contact: +91 6359158825

Website: www.ayokimerchantile.com, Email: ayoki1985@gmail.com

**NOTICE OF POSTAL BALLOT & REMOTE E-VOTING** 

NOTICE is hereby given pursuant to and in compliance with the provisions of Sections 110 and 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings/ conducting postal ballot through e-voting, vide General Circular No. 11/2022 dated 28th December, 2022 (In porting the type Include leave against in the record). It is SEBI / Liethon Obligations of the continuation of the cont postal ballot through e-voting, vide General Circular No. 11/2022 dated 28th December, 2022 (in continuation to the circulars issued earlier in this regard), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations") vide circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and subject to other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), approval of the Members of the Company is being sought for the following Special Resolutions by way of Postal Ballot through remote e-voting process only ("remote e-voting").

escription of Special Resolution

ASSOCIATION OF THE COMPANY

CHANGE IN NAME OF THE COMPANY FROM 'AYOKI MERCHANTILE LIMITED' TO 'WARDWIZARD HEALTHCARE LIMITED' AND CONSEQUENTIAL ALTERATION TO MOA AND AOA OF THE COMPANY 2. ALTERATION TO THE OBJECT CLAUSE OF THE MEMORANDUM OF

n compliance with the above-mentioned provisions and MCA Circular, the electronic copies o

In compliance with the above-mentioned provisions and MCA Circular, the electronic copies or Postal Ballot Notice ("Notice") along with the Explanatory Statement has been sent on 13th October 2023, to those Members whose names appeared in Register of Members/ List of Beneficial Owners maintained by the Company RTA/ Depositories respectively as at close of business hours on 06th October, 2023 (the Cut-off date") and whose e-mail IDs are registered with the Company RTA/ Depositories. In accordance with the above-mentioned Circulars, members can vote only through remote e-voting process. Further, pursuant to the aforesaid circulars sending the physical copies of the Notice, postal ballot forms and pre-paid levelopes and the property and the proper ness reply envelops have been dispensed with.

This Notice is available on the Company's website at www.ayokimerchantile.com website of the Stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com respectively and on the website of the National Securities Depository Limited ("NSDL") at evoting@nsdl.co.in. instructions for remote e-voting;

In compliance with the provisions of Sections 108, 110 of the Act read with the Rules and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company has provided the facility to the Members to exercise their votes electronically through remote e-voting only on the e-voting platform provided by NSDL. The detailed procedure for casting of votes through remote e-voting has Members whose names appeared in the Register of Members/ List of Beneficiary Owner as or

the cut-off date i.e. **06th October, 2023**, are eligible to vote on the resolutions set out in the Notice through remote e-voting only. The voting rights shall be reckoned on the paid-up equity shares registered in the name of the Members as on that date. Members are requested to provide their assent or dissent through remote e-voting only. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice for information purpose only.

The remote e-voting period shall commence on Wednesday, 18th October, 2023 (9:00 a.m. IST) and end on Thursday, 16th November, 2023 (5:00 p.m. IST). Members may cast their vote electronically during the aforesaid period. The remote e-voting module shall be disabled at 5:00 p.m. IST on Thursday, 16th November, 2023, and remote e-voting shall not be allowed beyond the same. During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote by remote e-voting.

Once the vote is cast on the resolution, the Members will not be allowed to change subsequently or cast the vote again.

Members who have not registered their email ID are requested to register the same in the

a) Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email ID with the Company are requested to register/ Update their email ID with Purva Sharegistry (India) Private Limited on https://www.purvashare.com/email-and-phone-updation/or mail.
b) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email ID with the relevant Depositories participants with whom they maintain their demat

Mrs. Pooja Amit Gala, Practicing Company Secretary (Membership No: 69393 COP: 25845) has been appointed as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot, through remote e-voting process, in a fair and transparent manner.

The result of remote e-voting will be announced within two (2) working days from close of voting period. These results will also be displayed along with Scrutinizer's report hosted on website of the Company (www.ayokimerchantile.com) and on the website of Stock Exchange BSE limited at www.bseindia.com and website of the NSDL (evoting@nsdl.co.in).

In case of any query relating to e-voting, Members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice and in a particula manner of casting vote through remote e-voting.

By Order of the Board For Ayoki Merchantile Limited

CS Dharmesh Chauhai Place : Vadodara (Company Secretary Membership No.: A40003 Date: 13/10/23



Zonal Office:- SCO 120-122, First Floor, Sector 17-C, Chandigarh - 160017, Ph.: 0172-2713010, 2548889 E-mail: cmmarc\_chd@mahabank.co.in Head Office: 'LOKMANGAL', 1501 Shivajinagar, PUNE 411 005

PHYSICAL POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the BANK OF MAHARASHTRA, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Sub-Section (12) of Section 13 read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002, issued a Demand Notice calling upon the Borrower(s) / Guarantor(s) to repay within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having falled to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken PHYSICAL POSSESSION of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on nim/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the respective days as mentioned before the borrowers. The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealings with the property/jes will be subject to the charge of **Bank of Maharashtra** for an amount herein below mentioned.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem th ecured assets

Name of the Branch & Movable / Immovable Property/ies Type & Date of Possession Interest & other Borrower(s) / Guarantor(s) (1) Registered Mortgage of all those Rs. 1,12,59,231/-/o:- ARB. SECTOR 17. CHANDIGARH pieces and parcel of land and building plus interest, Borrower(s):- M/s Krishna Flour Milis (through its Proprietor - Sh. Satpal Singh S/o Sh. Mahender Singh), Address:- Sahupura situated at Village Sahupur, Tehsil 04.07.2016 (less recovery, if any Road, Village Sahupura, Ballabgarh Ballabgarh, Distt. Fariabad forming part of affected after 04.07.2016). d, Haryana - 121004. Guarantor(s):- Khewat / Khatoni No. 40/54 to 56 Rect. No. 20, Kila No. 27(0-B), Rec. No. 34, Kila Sh. Mahender Singh S/o Sh. Jaggi Ram, No. 12/2(5-7), 19(8-0), 20/1(0-17), Rect. No. 34, Kila No. 9(8-0), 10/1(1-10), 12/1(2-10

neasuring 35 Kanals 7 Marlas, Khewat / Khatoni No. 176/235, Rect. No.20, Kila No, 13/2(7-5), 14/1(1-10), 17 /3/1(0-3), 18/1(1-7) Rect. No. 34, Klia No. 1(8-0), Kita 5, measuring 18 Kanals 15 Marias, Khata No. 236, Rect. No. 20, Klia No. 17/3/2(1-17), 18/2(6-3) 19/1(2-12), Rect No. 34, Klia No. ½(1-7), 2(7-4), Kita 5, measuring 19 Kanals 3 Marias, Khewat / Khatoni No. 180/240, Rect. No. 20 Gla No. 25(8-0), Rect. No. 25, Kila No. 5(6-3), Rect. No. 30, Kila No. 25(6-0), Rect. No. 34, Kila No. 1/1(5-17), 10/2(6-10), Rect. No 35, Kila No. 5(7-4), 7/2/1(3-16), 14/2/2(3-15), Kita 8 measuring 47 Kanals 5 Marias, i.e. Kita 30, Total measuring 147 Kanals 5 Maria to the extent of 49/2945 share i.e. 02 Kanals 09 Marias(1482 Sq. Yds): Together with the building and structure thereon (2) Al Machineries in the unit hypothecated to the Bank (The above mentioned securities are also mortgaged in NPA A/c M/s Mahendra Thermo Packaging, through Proprietor - Sh. Mahendra Singh, for Credit Facility of RS. 125.00 Lacs) AUTHORIZED OFFICER Place: Faridahad Dated: 12.10.2023



#### **HDFC Life Insurance Company Limited** CIN · L65110MH2000PLC128245

Registered Office: 13th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011 Ph: 022-67516666, Fax: 022-67516861,

Email: investor.service@hdfclife.com, Website: www.hdfclife.com

### NOTICE

### Transfer of Unclaimed Dividend/ Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules"), the dividend declared during the financial year 2016-17, which remained unclaimed for a period of seven years are required to be transferred to the account maintained by the IEPF Authority on or after January 16, 2024. The corresponding equity shares on which dividends were unclaimed for a period of seven consecutive years will also be transferred to the demat account of the IEPF Authority as per the procedure set out in the Rules.

In compliance with the Rules, individual notices are being sent to all the concerned shareholders whose dividend/ equity shares are liable to be transferred to the IEPF. The details of the said concerned shareholders are made available on the website of the Company i.e. www.hdfclife.com

In this connection, please note the following

- In case equity shares are held in physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to the IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by the shareholder(s), will stand automatically cancelled.
- In case equity shares are held in electronic form; Concerned shareholder(s) demat account will be debited for the equity shares liable for transfer to the IEPF.

Concerned shareholder(s) are hereby requested to claim the dividend/ equity shares on or before December 31, 2023, failing which the Company, shall transfer the unclaimed dividend and the corresponding equity shares to the IEPF Authority without any further notice after the due date No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and the

corresponding equity shares transferred to the IEPF and the same including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed from the IEPF Authority by making an application in Form No. IEPF-5 and after following the procedure prescribed in the rules, details of which are available on the website of the IEPF Authority i.e. www.iepf.gov.in For any queries in respect of the above matter, shareholders may contact KFin Technologies Limited,

the Registrar and Share Transfer Agent of the Company at Tower - B, Plot No 31 & 32, Selenium Building, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500 032 (Contact Person: Krishna Priya M, E-mail id: einward.ris@kfintech.com, Contact Number: 040-67162222 / 79611000)

For HDFC Life Insurance Company Limited

Sd/

Narendra Gangan General Counsel, Chief Compliance Officer Date: October 14, 2023 Place: Mumbai & Company Secretary

## GOLDCREST CORPORATION LIMITED

Corporate Identification Number: U74999MH1983PLC029408 Registered Office: 3rd Floor, Devidas Mansion, Mereweather Road, Colaba, Apollo Bunder, Mumbai, Maharashtra, 400001, India, Contact details: Tel No.: +91-22-22837489 / 22837490 Email-id: office@goldcrestgroup.com | Website: www.goldcrestgroup.com Company Secretary and Compliance Officer: Marisa Eldin Ferreira

NOTICE TO RESIDUAL PUBLIC SHAREHOLDERS OF GOLDCREST CORPORATION LIMITED INTIMATION ON COMPLETION OF POST DELISTING EXIT OFFER PERIOD

This intimation is to be read in conjunction with Public Announcement dated August 05, 2022, the Letter of Offer dated August 06, 2022, Post Offer PA dated August 29, 2022, Exit Letter of Offer dated October 10, 2022 and Exit Offer Public Announcement dated September 27, 2022; January 03, 2023; April 03, 2023 and July 06, 2023 (collectively referred to as "Delisting Documents"). All capitalization used herein but not defined shall have the same meaning as ascribed to it in the Delisting Documents

An explanation used reference in the Residual Public Shareholders of Goldcrest Corporation Limited ("Company") by Vivro Financial Services Private Limited ("Manager" or "Manager to the Delisting Offer") for and on behalf of one of the promoters of Goldcrest Corporation Limited viz., Nita Tushar Tanna ("Acquirer"), along with Anupa Tanna Shah ("PAC 1"), Namrata Tushar Tanna ("PAC 2"), Hansa "Uslidas Tanna ("PAC 3") and Goldcrest ited (formerly known as Goldcrest Securities & Commodities Private Limited) ("PAC 4"), person acting in concert with th Acquirer (collectively "PACs") to intimate and inform completion of nost delicting offer period with effect from closing business bours of October 12 2023 provided in accordance with inter alia, Regulation 27 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulation as amended ("Delisting Regulations" Dear Residual Public Shareholders

This is to inform all Residual Public Shareholders that the Equity Shares of the Company (Scrip Code: 505576) were delisted and trading in the Equity Shares of the Company has been discontinued with effect from Tuesday, October 04, 2022 and the Company's scrip was delisted from BSE with effect from Wednesday, October 12, 2022 ("Delisting Date").

In accordance with Regulation 26 of the Delisting Regulations, the Acquirer and PACs provided exit opportunity to the Residual Public Shareholders of the Company who did not or were not able to participate in the Reverse Book Building Process or who unsuccessfully tendered their Equity Shares in the Reverse Book Building Process and were holding Equity Shares in the Company, to tender their Equity Shares during a period of one year from the Delisting Date viz. from Wednesday, October 12, 2022 to Thursday, October 12, 2023 ("Post Delisting Exit Offer

Subsequently, through the Exit Letter of Offer dated October 10, 2022 and Exit Offer Public Announcement dated September 27, 2022; January

03, 2023; April 03, 2023 and July 06, 2023 was issued and the same was circulated to the Residual Public Shareholders. Copy of same is also available on the website of the Company at www.goldcrestgroup.com/delisting
Residual Public Shareholders who have validly tendered their Equity Shares at the Exit Price of ₹ 200/- (Indian Rupees Two Hundred Only) during the Exit window viz., till October 12, 2023 subject to the terms and conditions provided in ELOF will receive the payment by way of electronic credit following the receipt and verification of duly filled Exit Applications Form(s) (together with necessary enclosures, if any and receipt of the Equity Share(s) in the Special Depository Account / receipt of physical share certificate(s) (along with duly filled in transfer deed(s) as

view of above, this is to inform the Residual Public Shareholders that the Post Delisting Exit Offer Period closed on Thursday, October 12, 2023 and accordingly, the obligations of the Acquirer and PACs to mandatorily acquire Equity Shares under the Post Delisting Exit Offer Period is deemed to be completed in terms of Regulation 26 and other applicable regulations of the Delisting Regulation. The Residual Public Shareholders are requested to

The Acquirer and PACs accept full responsibility for the information contained in this intimation and confirms that such information stated herein i true, fair and adequate in all material aspects.

## Manager to the Delisting Offer

VIVRO VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED ddress: 607/608 Marathon Icon, Opp. Peninsula Corporate Park Off. Ganpatrao Kadam Marg, Veer Santaji Lane, Lower Pare

(DIN: 00170591)

Date: October 13, 2023

Mumbai 400 013 Maharashtra India elephone No.: +91 22 6666 8040/ 41/ 42 Email ID: investors@vivro.net Website: www.vivro.net SEBI Registration No.: INM000010122 CIN: U67120GJ1996PTC029182 Contact Person: Jay Shah / Viral Shah

O PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED Address: 9, Shiv Shakti Industrial Estate, Ground Floor, Sitaram Mill Compound, J.R. Boricha Marg, Lower Parel (East), Mumhai - 400 011 Maharashtra India elephone No.: 022 - 2301 6761 / 2301 8261 Email ID: support@purvashare.com Website: www.purvashare.com SEBI Registration No.: INR000001112 CIN: U67120MH1993PTC074079

Registrar to the Delisting Offer

Place: Mumbai

Acquirer PAC 1 PAC 2 PAC 3 Anupa Tanna Shah Namrata Tushar Tanna For and on behalf of the Goldcrest Global Trading Private Limited (PAC 4) Nita Tushar Tanna Anuna Tanna Shah

Contact Person: Purva Shah

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Circle Sastra Office Jaipur Ajmer, Second Floor, Plot No. 2. Nehru Place, Tonk Road, Jaiour 302004 Tel: 0141-2716518, E mail: cs8244@pnb.co.in

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the 'Securitsation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, read with provise to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Symbolic/Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Punjab National Bank Secured Creditor, will be sold on "As is where is", As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank Secured Creditor from the respective borrower (s) and Guarantor (s). The Reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the below against the respective properties.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

	SCHEDULE OF TH	E SECURED ASSETS			
Name of the Branch	Description of the	(A) Date of Demand notice u/s. 13(2) of SARFAESI Act, 2002	Price	Date/time	Details of the
Name of the Account	immovable	(B) Outstanding amount as or	(B) EMD/ Last Date of EMD Deposit		encum-
Name & Addresses of the Borrower/ Guarantors	property mortgaged/ Owner's Name (Mortgagors	(C) Possession Date u/s 13(4) of SARFAESI Act 2002	(C) Bid Increase Amount	e-auction	known to
Account	of property/les)	(D) Nature of Possession Symbolic/Physical/Constructive	(D) Inspection		secured
Ajmer Valshall Nagar (077110)	Equitable Mortgaç	e of A)06/09/2021	A) Rs.5,60,000/-	02/11/2023	Not
Indra Smt. Indra W/o Sh. Raju Das (Borrower) Add:- Plot No. 91, Valmiki Aawas Yojana, Ajmer Rajasthan Sh. Raju Das S/o Sh. Rampal Das (Co- Borrower) Add:- Plot No. 91, Kotra Valmiki Aawas Yojana, Ajmer Rajasthan	Residential property situal Flat No. 223, Shree Vatil floor, F block, Near J Hospital Ajmer, standing name of Smt. Indira W/o S Das, admeasuring 348.51 Boundaries are as under Flat No. 222, South: Space East: Flat No. 204, Corridor and Flat No. 209.	tied at B) 8,47,855.40 as on a 30/09/2022 plus anana payable with further in the interest and expenses payment Sq.Ft., paid in full.  Open West:-  D Symbolic Possession	B) Rs 56,000/- (01/11/2023) C) Rs. 10,000/- D) (31/10/2023) From 11.00 AM to 03.00 PM	From 11.00 AM to 03.00 PM	Known
Ajmer Vaishali Nagar (077110) SAVITA RAWAT Smt. Savita Rawat w/o Ishwar Rawat (Borrower) Add: 100, Rawat Basti, Kanas Tehsil Ajmer, Distt. Ajmer 305022 Sh. Ishwar Rawat S/o Sh. Mula (Co-Borrower) Add: 100, Rawat Basti, Kanas Tehsil Ajmer, Distt Ajmer 305022	7th floor, Near Janana H Almer, standing in the na Smt.Savita Ishwar Rawat a Ishwar Mula Rawat admea 348.51 sq. ft, Boundaries	ated at B) Rs. 5,82,923.11 as Slock F, on 30/09/2023 plus ospital payable with further interest and expenses payment paid in full. Suring C) 29/04/2022	(01/11/2023)	02/11/2023 From 11.00 AM to 03.00 PM	Not Known

TERMS AND CONDITIONS—1. The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 2. The properties are being sold on, AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS", 3. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation., 4. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website <a href="https://www.mstcecommerce.com">https://www.mstcecommerce.com</a> on above mentioned date as per timings mentioned in the table., 5. For detailed term and conditions of the sale, please refer <a href="https://www.ibapi.in.">https://www.ibapi.in.</a>, https://eprocure.gov.in/epublish/app. http://www.mstcecommerce.com & www.pnbindia.in

STATUTORY 15 DAYS NOTICE UNDER RULE B(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002 Date: 13.10.2023 Place- Ajmer Punjab National Bank, Secured Credito



### TATA STEEL LONG PRODUCTS LIMITED

Registered Office: P. O. Joda, Dist. Keonjhar, Odisha - 758 034 IN

Tel No: +91 6767 278122

Website: www.tatasteellp.com, E-mail: investorcell@tatasteellp.com

CIN: L27102OR1982PLC001091 Extract of Standalone Financial Results for the quarter / six months ended Sentember 30, 2023

						₹ Crore
Particulars	Quarter ended September 30, 2023 Audited	Quarter ended June 30, 2023 Audited	Quarter ended September 30, 2022 Audited	Six months ended September 30, 2023 Audited	Six months ended September 30, 2022 Audited	Financia year ende March 31, 2023 Audited
Total revenue from operations	1,734.04	1,909.62	1,913.94	3,643.66	3,908.19	7,464.0
Net (Loss) for the period (before tax and exceptional items) Net (Loss) for the period before	(94.04)	(103.57)	(341.08)	(197.61)	(675.88)	(1,027.92
tax (after exceptional items)	(94.04)	(103.59)	(341.08)	(197.63)	(675.88)	(1,029.6
Net (Loss) for the period after tax	(135.76)	(36.49)	(333.36)	(172.25)	(664.45)	(1,085.4
Total comprehensive income for the period [Comprising (Loss)/Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(139.37)	(36.71)	(327.44)	(176.08)	(657.02)	(1,084.6
Paid-up equity share capital [Face value ₹ 10 per share]	45.10	45.10	45.10	<b>4</b> 5.10	<b>4</b> 5.10	45.10
Net Worth						2,059.4
Basic earnings per share of ₹ 10 each (not annualised) -	(30.10)	(8.09)	(73.92)	(38.19)	(147.33)	(240.69
in Rupees Diluted earnings per share ₹ 10 each (not annualised) - in Rupees	(30.10)	(8.09)	(73.92)	(38.19)	(147.33)	(240.69

## Extract of Consolidated Financial Results for the quarter / six months ended September 30, 2023

Particulars	Quarter ended September 30, 2023 Unaudited	Quarter ended June 30, 2023 Unaudited	Quarter ended September 30, 2022 Unaudited	Six months ended September 30, 2023 Unaudited	Six months ended September 30, 2022 Unaudited	Year ended March 31, 2023 Audited
Total revenue from operations	2,947.60	3,568.24	1,869.18	6,515.84	3,863.43	8,991.78
Net (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(436.57)	(328.92)	(775.24)	(765.49)	(1,110.04)	(2,536.33)
Net (Loss) for the period before tax (after exceptional items) Net (Loss) for the period after tax	(436.57) (460.23)	(328.94) (254.18)	(775.24) (661.80)	(765.51) (714.41)	(1,110.04) (992.89)	(2,538.03) (2,303.85)
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(464.27)	(255.77)	(658.54)	(720.04)	(988.12)	(2,307.57)
Paid-up equity share capital [Face value ₹ 10 per share]	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10
Basic earnings per share of ₹ 10 each (not annualised) - in Rupees	(97.14)	(53.03)	(143.29)	(150.17)	(216.70)	(498.55)
Diluted earnings per share ₹ 10 each (not annualised) - in Rupees	(97.14)	(53.03)	(143.29)	(150.17)	(216.70)	(498.55)

## NOTES:

a) The above is an extract of the detailed format of Results for the quarter and six months ended September 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Results for the quarter and six months ended September 30, 2023 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com/www.bseindia.com) and the Company's website (https://www.tatasteellp.com/quarterly-results).

b) The above results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on October 13, 2023 and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 13, 2023

**Tata Steel Long Products Limited** 

**Ashish Anupam Managing Director** 

Date: 13th October 2023 Place : Jaipur DIN: 08384201



**पंजीकृत और कॉपॉरेट कार्यालय:** असेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एटरप्राइज़ लि. 2री मंज़िल, मोहन देव बिल्डिंग, 13, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001 शाखा कार्यालयः युनिट नं.: बी विंग, वन बीकेसी, रेडियस डेवलपर्स, प्लॉट नं.: सी-66, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400051

> परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

असेट रिकस्टुक्शन प्रा. लि. (एसीआएई) (असाइनी-एसीआएई ट्रस्ट के ट्रस्टी के नाते क्रिया करते हए-109)ने एसएआरएफएईएसआई कानून, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत, डीड ऑफ असाइनमेंट ऑफ डेब्ट दिनांक 31–12–2019 के ज़रिए एल एंड टी फायनांस लि. (असाइनर) से सभी अंतर्निहित सिक्योरिटीज़ के साथ सभी बकाया देयताओं को अध्रग्रहित कर लिया है और सुरक्षित क्रेडिटर की मुमिका में आ गई है और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स,2002 के (नियम 3) के साथ पढ़ते हुए उक्त कानून की घारा 13(12) द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से कर्जदार/सह–कर्जदारों तथा गारंटरों को आवाहन करते हुए नीचे संलग्न मांग सूचना में वर्णित राशि मांग सूचना के दिनांक से भुगतान किए जाने तक आगामी ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिन के अंदर चुकता करने के लिए मांग सूचना जारी की है.

कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर राशि चुकाने में विफल रहने के कारण एतदद्वारा रेहनकर्ता, कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर और जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त कानून की धारा 13 के अंतर्गत उन्हें दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए यहाँ वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है.

कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का ध्यान सुरक्षित आस्तियों का मोचन करने हेत् उपलब्ध समय के संदर्भ में उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रवाधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है.

लोन खाता	उधारकर्ता/ओं,	·		मॉॅंग नोटिस	लिए गए कब्जे का
संख्या	सह-उधारकर्ता/ओं और गारंटीदाताओं का नाम	बंधक रखी गई संपत्तियों का विवरण	दिनांक	बकाया राशि (₹)	दिनांक और प्रकार
H153692603 18123224 H153692603 18123224L	दीपक कुमार आशा	सूची—। इस पते पर स्थित संपत्ति का प्रत्येक भूखंड—पलैट नं. वैलेंसिया — 505, 5वीं मंज़िल, ओएसिस ग्रॅंडस्टोन, GH-01, TS-01B, सेक्टर—22D, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश सीमाएँ पूर्व 30 मीटर चौडी सड़क पश्चिम 18 मीटर चौडी सड़क उत्तर 24 मीटर चौडी सड़क दक्षिण अन्य लोगों की संपत्ति	30.08.2019	रु. 26,74,578.89 (छब्बीस लाख चौहतर हज़ार पाँच सौ अठतर रुपये नवासी पैसे मात्र) दिनांक 06.08.2019 तक	10/10/2023 प्रतीकात्मक आधिपत्य
H153791203 18014817 H153791203 18014817L	मनीष कुमार शालू वर्मा	इस पते पर स्थित संपत्ति का प्रत्येक भूखंड-फ्लैंट नं. फीनिक्स – 1204, ओएसिस ग्रॅंडस्टैंड, GH-01, TS-01B, सेक्टर-22D, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश सीमाएँ पूर्व 30 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिम 18 मीटर चौड़ी सड़क उत्तर 24 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिण अन्य लोगों की संपत्ति	30.08.2019	रु. 19,72,076.34 (उन्नीस लाख बहत्तर हज़ार छिहत्तर रुपये चौंतीस पैसे मात्र) दिनांक 06.08.2019 तक	10/10/2023 प्रतीकात्मक आधिपत्य
H126552201 18042416 H126552201 18042416L	कषा देवी अरोड़ा सिद्धांत सिंह	इस पते पर स्थित संपत्ति का प्रत्येक भूखंड-वैलेंसिया - 805, 8वीं मंज़िल, प्लॉट नं. P7, GH-01, TS-01B, सेक्टर-22D, यमुना एक्सप्रेसचे, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। सीमार्थे पूर्व 30 मीटर चौड़ी सड़क पश्चिम 18 मीटर चौड़ी सड़क उत्तर 24 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिण अन्य लोगों की संपत्ति	30.08.2019	रु. 27,91,154.3/ – (सत्ताइस लाख इक्यानवे हजार एक सौ चौवन रुपये तीस पैसे मात्र) दिनांक 06.08.2019 तक	10/10/2023 प्रतीकात्मक आधिपत्य

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटीदाताओं को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्यस रूप से एतदद्वारा संपत्ति का सौदा न करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति का कोई भी सौदा माँग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ माँग नोटिस में उल्लिखित राशि के लिए एसीआर्ख असेट केयर एंड रिकंस्ट्रवंशन एंटरप्राइज लि. (असाइनी–एआरसीई ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत-109) के प्रभार के अधीन होगा.

दिनांक: 14.10.2023

प्राधिकत अधिकारी असेट केयर एंड रिकंस्टक्शन एंटरप्राइजेस लि. (ट्रस्ट-109)

## रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड RELIGARE SME

<u>मांग सूचना</u> वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

हम **रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड** ने अपने प्राधिकत अधिकारी के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण की घारा 13(2) और

प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 और प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमों , 2002 नियम 3 के साथ पठित घारा 13(2) के तहत प्रवत्त शक्तियों से मांग सूचना जारी कि है। इसका विवरण है कि आपके द्वारा मूल ब्याज आदि की किश्तों के मुगतान में चूक की गई है। बकाया राशि निम्न वर्णित की गई है।

<b>页</b> . ゼ.	उधारकर्ता/सह—उधारकर्ताओं का नाम/डाक पता	ऋण खाता संख्या(आवेदन आईडी)/13(2) सूचना की विनांक/ प्राप्त ऋण राशि/ऋण समझौते की दिनांक/एनपीए दिनांक/आधिनियम घारा सूचना के अनुसार मांग राशि	प्रत्याभूत का विवरण/ बंधक संपत्ति
1.	1. श्री राहुल कुमार नरवेकर पुत्र श्री बाबूराव संभाजी नरवेकर,	ऋण खाता संख्या XMORPNG00010232, (आवेदक आई डी 524009)	संपूर्ण निम्न भूतल बिना
Ш	<b>निवासी</b> : डी—290, निम्न भूतल, सर्वोदया एन्क्लेव,	13(2) सूचना की दिनांक : 14.09.2023	छत अधिकार, निर्मित
П	नई दिल्ली—1 100 177	प्राप्त ऋण राशि : रू.85,00,000/—	संपत्ति सं. डी—290,
П	अन्य पता : मारफत मैसर्स फैशन एण्ड यूस 426,	ऋण समझौते की दिनांक : 24-07-2010	मापक क्षेत्र 200 वर्ग गज,
П	स्माईल बिल्डिंग, उद्योग विहार, फैज—3, गुड़गांव (हरियाणा)—124001,	एनपीए दिनांक — 30.08.2023	संग 25% अविभाजित,
П	(हारवाणा)— 124001, 2. श्रीमती पल्लवी अजय कुमार राव पत्नी राहुल	धारा 13(2) सूचना के अनुसार मांग	अभाज्य और अप्रमावनीय
П	कुमार नरवेकर,	रूपये 78,48,390.59/— (रुपये अठहत्तर लाख अड़तालीस हजार	भूमि अधिकारों गैस
П	<b>निवासी</b> : डी–290, निम्न भूतल, सर्वोदया एन्क्लेव,	तीन सौ नब्बे और पैसे उनसठ मात्र) दिनांक	सर्वोदया एन्क्लैव, नई
П	नई दिल्ली—1 100 17	06.09.2023 को संग ऋण खाते में	दिल्ली पर स्थित का संपूर्ण
П	<b>अन्य पता :</b> मारफत मैसर्स एंट्रिनमेंट नेटवर्क इंडिया	07.09.2023 के बाद ब्याज और शुल्क के साथ	व सर्वांगीण भाग।
П	लि. 201, तीसरा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फैज–3 नर्ड टिल्ली–110013	·	

इसके अलावा, हम मानते हैं कि आप मांग सूचना लेने से बच रहे हैं। इसलिए मांग सूचना का प्रकाशन किया गया है। एतद् दारा आपको इस मांग सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों की अवधि में रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड को उपरोक्त राशि मविष्य के ब्याज, लागत, आकस्मिक व्यय, शुल्क आदि के साथ मुगतान करने के लिए कहा जाता है, असफल होने पर रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधान के तहत उधारकर्ता के इस प्रत्यामत संपत्ति का कब्जा लेने सहित सभी या किसी भी एक या अधिक पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत या तो बिक्री/पट्टे के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त प्रत्याभृत परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि आगे कोई मांग सूचना जारी नहीं की जाएगी

दिनांक : 14.10.2023 स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड



SHRIRAM City

## श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

पूर्व की श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय : 14ए, श्री टॉवर्स, साउथ फेस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई 600 032 शाखा कार्यालय : 387/10, राज निसान बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, जयपुर रोड, सामने पटेल स्टेडियम् निकट बजरंग पेट्रोल पम्प, अजमेर 305001, राजस्थान, वेबसाइट : www.shriramfinance.in

## मॉॅंग सूचना

नोट : यह सुचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार ''श्रीराम सिटी युनियन फाइनेंस लिमिटेड'' को "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड" के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड' का नाम बदलकर "श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड" कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पर्व का श्रीराम सिटी यनियन फाइनेंस लिमिटेड) से वित्तीय सहायता ग्रहण की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजद, कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभृत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक आकरिमक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सुचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबद्ध तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं।

उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गर्यी सचनाएँ अनसर्व्ड वापस कर दी गर्यीऔर उन्हें इस सार्वजनिक सचना के माध्यम से इसी के विषय में सचित किया जा रहा है।

प्रतिभृत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार( रों )/सह–कर्जदार( रों )/	बकाया राशि	ऋण राशि	प्रतिभूत आस्तियों का सम्पत्ति
जमानती का नाम एवं पता			पता
ऋण संख्या CDAJ2LP2207060003  1. मैसर्स जैनिका मेटल एंड मशीन्स इंडस्ट्रीज (प्रोपराइटर हेमंत कुमार जोनवाल) (कर्जदार) क्षेत्र परबतपुरा, अजमेर, 305001  2. श्री हेमन्त कुमार जोनवाल पुत्र अमर चंद जोनवाल (सह-कर्जदार/गारंटर) 715 ए/29, रुक्मणि कुटीर, मेयो लिंक रोड, आनंदपुरी, अजमेर-305001  3. श्रीमती कल्पना पत्नी हेमंत कुमार जोनवाल (सह-कर्जदार/गारंटर) 715 ए/29, रुक्मणि कुटीर, मेयो लिंक रोड, आनंदपुरी, अजमेर-305001 एसणिए दिनांक- 03-09-2023 मांग सूचना की तिथि: 03-10-2023	ह. 2948254/- (ह्रपये उनतीस लाख अइतालीस हजार दो सौ चौवन मात्र) फोर क्लोजर राशि दिनांक 30-09-2023 के अनुसार तथा नियम एवं शर्ती के अनुसार	रु. 30,00,000 /- (रुपये तीस लाख मात्र)	

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हो) को ऊपर उल्लिखित के अनसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अन्तर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभृत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभृत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभृत लेनदार की पूर्व सहमति के बिना इस सचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभत आस्ति को पटटे, बिक्री या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

स्थान : अजमेर ह./ अधिकृत प्राधिकारी दिनांक : 14.10.2023

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

Public Notice

This is to inform the General Public that the following share certificate of the name of company M/S. DCM Shriram Limited having its Registered of office 2nd Floor, (West Wing), Worldmark1 Aerocity, New Delhi, Delhi, 110037 registered in the name of the following shareholder/s has been lost by them

Name of the Share Holder Folio No. No. Of Shares Distinctive Nos. Certificate Nos. | Bindra Devi Kapur (Expired) | 00006358 | 860 (F.V. Rs. 24-) | 303826-304685 | 860 (F.V. Rs. 24-) | 87155486-87156348

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above ferred share certificates.

Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Agents MCS Share Transfer Agent Limited, F 65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi, Delhi, 110020 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificat

Place: Delhi Date: 14/10/2023

Name of the Shareholder: Sanjiv Kapur

जेबीएम ऑटो लिमिटेड (CIN: L74899DL1996PLC083073) पंजी. कार्यालयः 601, हेमकुंट चैम्बर्स

89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 फोन. 011-26427104-06; फैक्स: 011-26427100 ई—मेल: ibma.investor@ibmgroup.com वेबसाइट: www.jbmgroup.com

फार्म नं. आईएनसी–26 (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) क्षेत्रीय निर्देशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(क) के मामले में

और जेबीएम ऑटो लिमिटेड (CIN: L74899DL1996PLC083073) के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय 601, हेमकुंट चैम्बर्स, 89, नेहरूप्लेस, नई दिल्ली-110019 में स्थित है।

.आवेदक कंपनी आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी का अपना पंजीकृत कार्यालय **''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'**' से **''हरियाणा राज्य''** में परिवर्तित करने में समर्थता

हेतु शनिवार, 16 सितंबर, 2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के अनुरूप कंपनी के संगम ज्ञापन के खंड ॥ में बदलाव की पुष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन, केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

कोई भी व्यक्ति, जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना हो, वह या तो एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर **निवेशक शिकायत फार्म दायर करके** अथवा अपनी आपत्तियां, उनके समर्थन में एक शपथ पत्र, अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार का उल्लेख करते हए, इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरा तल, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली—110003 के पास पंजीकृत डाक से प्रस्तुत कर सकता है, साथ में एक प्रति आवेदक कंपनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे वर्णित पते पर प्रेषित करें: 601, हेमकुंट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली — 110019

कृते जेबीएम ऑटो लिमिटेड संजीव कुमार कंपनी सचिव एवं अनुपालना अधिकारी दिनांकः अक्टूबर 13, 2023 स्थानः दिल्ली सदस्यता सं. ए18087

यस धैंक लिमिटेड

YES BANK पंजीकृत एवं कॉपॉरेट कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रुज पूर्व, मुम्बई - 400055 CIN: L65190MH2003PLC143249, ईंगेल : communications@yesbank.in, वेबसाइट: www.yesbank.in

### सांकेतिक आधिपत्य सूचना [नियम – 8(1) अचल संपत्ति हेतु ]

यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रवर्त अधिकारों के अनुसरण में, नीचे विस्तार में वर्णित ऋणी को मांग सूचना पत्र जारी किया था जिसके तहत उक्त 13(2) घारा के अंतर्गत सूचना के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। ऋणी द्वारा संपूर्ण धनराशि न चुकाए जाने पर, एतद्दवारा ऋणी को एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें दिए गए अधिकारों के अनुसरण में यहाँ वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्दवारा सतर्क किया जाता है कि संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा न करें एवं संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा यहाँ वर्णित राशि का उस पर अनुबंधित दर से ब्याज एवं लागत के भुगतान के साथ यस बैंक लिमिटेड को चुकाए जाने के अधीन किया जाएगा।

<b>\$</b>	जमानतदार(रॉ)/ बंधककर्ता(ऑ) का नाम	ऋण खाता संख्या	बंधक संपत्ति का विवरण	नोटिस राशि (रु.)	पुन: कब्जे की दिनांक
1	1. मेसर्स सोनी गारमेन्टस् (ऋणी) 2.श्रीमती शरीन कौसर (जमानतदार) 3. मो. अजमल (जमानतदार/ बंघककर्ता)	01818460 0001710 एवं 181LA4020 2280001	आवासीय मकान, भूमि सतह के साथ क्षेत्रफल 105.87 वर्ग यार्ड, समानांतर 88.51 वर्ग मीटर, नगर निगम संपत्ति नं. 4/292, 4/293 (पुराना) एवं 4/386 (नया), मोहल्ला ख्वाज़ा अहमद सराई स्थित, साहरनपुर (उ.प्र.)	₹ 34,14,414.21/- (रुपये चौतीस लाख चौदह हजार चार सौ चौदह एवं इक्कीस पैसे मात्र) दिनांक 02.07.2023 तक	04.07.2023 11.10.2023
2	1. मेसर्स लांबा फेब्रिक्स (ऋणी) 2. श्री सागर लांबा (बंधककर्ता एवं जमानतदार) 3. श्रीमती शालू लांबा (जमानतदार)	0181846 00000841 एवं 181LA4021 3290001	आवासीय प्लॉट नं. 155, खसरा नं. 597एम में सम्मिलित, दारा मिलकाना स्वाद बैरुन दार आबादी, लक्षमीत धाम कॉलोनी स्थित, साहरनपुर (उ.प्र.)	र 71,43,020.05/- (रुपये इकोत्तर लाख त्रियालीस हजार बीस एवं पांच पैसे मात्र) दिनांक 20.05.2023 तक	24.05.2023 11.10.2023

प्रभार एवं व्यय के साथ हमारी बकारा राजि धेनियम की धारा 13(8) में अपेक्षित अनुसार, हमारे द्वारा खर्च का भुगतान, बिक्री या स्थानांतरण की निर्दिष्ट तिथि से पहले किसी भी समय कर दिया जाता है, तो हमारी ओर से प्रतिभूत संपत्ति का विक्रय या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा एवं उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति के स्थानांतरण या बिक्री के लिए हमारी ओर से आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांक : 11.10.2023 स्थान : साहरनपुर (उ.प्र.)

सुधार

सं स्वाति / सर-स्वाति (गों) /

(प्राधिकृत अधिकारी) यस बैंक लिमिटेड

मात्र)

# चौndiaShelter इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

TIONICE JUGINS
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट-15, ६ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव, हारियाणा-122002, शाखा कार्यांतवः कोटा: इंडिवा शेल्टर फाइनेंस कॉपोरेंशन लिमिटेड, पहली मंजिल, 10 डी, पंजवानी कॉस्प्लेशस सामने मल्टीयर्पज स्कूल, गुमानपुत, कोटा-304007 राजस्थान, झालावाड़: खसरा नंबर 2016, निर्भव सिंह सर्कल, एचडीएफसी बैंक के पास, झालावाड़, राजस्थान - 326001, भीलवाड़ा: श्री सुदर्शन, एचसटेंशन-116, पहली मंजिल, गायत्री आश्रम के पास, अजमेर रोड, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311001, खसरा नंबर 2016, निर्भव सिंह सर्कल, एचडीएफसी बैंक के पास, झालावाड़, राजस्थान - 326001

सार्वजनिक सूचना-अचल संपत्ति की विक्री के लिए नीलामी [प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम ९(1) के तहत]

संपंति की मिलने के लिए सुचना सामान्य रूप से जनता को और क्षिशेष रूप से कर्बदार(वें) और ज्यानती(यें) या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधयों को सुचना दी वाती है कि प्रतिजूत तेनदार के पास गिरकी/प्रचारित नीचे वर्णित अचल संपंति जिसका कच्जा आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभृत लेनदार) झरा ले लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा जमानतियों से बकाया देयताओं को वसुली के लिए ''**जहां है जैसे है**'', ' है बति है" तबा "जो कुछ भी है बदी है" आबर पर 04.09.2023 (नीतवामी को तारीख) को विक्री को कायेगी। सार्वजनिक नीतवामी में माग लेने के लिए ईएमडी रावि वाला मुहत्यद लिकामच आईएसएमलों के प्रांत आबाजनिक नीतवामी में माग लेने के लिए ईएमडी रावि वाला मुहत्यद लिकामच आईएसएमलों के प्रांत आबाजनिक नीतवाम कायाजनिक नीतवाम कायोजनिक नीतवाम कायोजनिक निकास कायोजनिक निकास कायोजनिक नीतवाम नीत 16 नवम्बर, 2023 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा।

10 14 44 2025 IA 4115	44 (4) 411 1/11 (4)								
ऋण खाता सं.	कर्जदार( र सह–कर्जदार	(सें)∕		मांग सूचना की	तिथि		ब्ब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
	जमानती( यों ). उत्तराधिकारी( यों प्रतिनिधि( यों )	)/विधिक		अब तक की	त्रिश		चनात्मक.∕ ौतिक के तहत)		
LAP200003900/ AP-0309292	श्री/श्रीमती च पत्नी श्री मद	न्दा बाई	हजार पांच	। सौ इकहत्तर मात्र) वि	(रुपये तीन लाख अरू तेथि 31 मई, 2019 त न तक प्रयोज्य भावी ब	क	भौतिक	रु. 3,96,000/- (रुपये तीन लाख छियानबे हजार मात्र)	रु. 39,600/- (रुपये उनतालीस हजार छः सौ मात्र)
संपत्ति का विवरणः सर्वे नंब घर, पश्चिम-श्री भेरू लाल का					ाज क्षेत्रफल, तहसील ला	डपुरा,	जिला कोटा 32	१००१ राजस्थान, सीमाबद	द्रः पूर्व-श्रीमती शांति का
LA32CLLON- SO00005 001653 / AP- 0926411	श्री/श्रीमती सन्तोष सैन पत्नी श्री प्रेम चन्द	सत्तानबे ए	्वं सत्ताईस पै		ात लाख सत्ताईस हज रून, 2022 तक तथा जिय भावी ब्याज		भौतिक	रु. 5,89,000/- (रुपये पांच लाख नवासी हजार मात्र)	रु. 58,900/- (रुपये अट्डावन हजार नौ सौ मात्र)
संपत्ति का विवरण: मेह	र समाज मंदिर के	पास स्थित	प्लॉट का स	म्पूर्ण भाग, बासेड़ा म	ोहल्ला, झालावाड़ त	हसील	झालरापाटन	जिला झालावाड़, राज	स्थान, क्षेत्रफल माप

1661.81 वर्ग फीट, इसकी सीमा इस प्रकार है: पर्व- विजयवर्गीय समाज का मैदान, पश्चिम- श्री रामचन्द्र जी का घर, उत्तर- कॉमन स्टीट, दक्षिण- श्री बालचंदजी का घ 13-अप्रैल-21 रु. 4,19,246.92/- (रुपये चार लाख उन्नीस हजार CHL100001765 (रुपये उनतालीर दो सौ क़ियालीस एवं बानबे पैसे मात्र ) तिथि 30 अप्रैल, 2021 तक A P -0618411 मनोहर लाल छियानबे हजार

संपत्ति का विवरणः ग्राम बोरदा, ग्राम पंचायत आरूण, पंचायत समिति सुवाणा, चारभुजा मंदिर के पास, भीलवाङा-311001, भीलवाङा, राजस्थान में स्थित भूखंड का समस्त भाग क्षेत्रफल 1033.125 वर्ग फीट, सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व- नाथ/मुला/मथुरा/कन्हैया लॉल पुत्र गणेश और जगदीश पुत्र कल्याण सुथार की सम्पत्ति, पश्चिम- कॉमने रोड, उत्तर- ब्रजरा सिंह पुत्र भोपाल सिंह शेखावत की सम्पत्ति, दक्षिण- नाथू/मुला/मथुरा/कन्हैया लाल पुत्र गणेश और जगदीश पुत्र कल्याण सुथार की सम्पत्ति

तथा 01 मई, 2021 से पूर्ण भुगतान तक प्रयोज्य भावी ब्याज

नत्त्व पुर । । निपादि ज्ञानि एम और बिड़ी के नियम और सर्वे जासाकोंगेरिट कार्यातयः आस्त्राकोंगेरिट कार्यातयः आसाकोंगेरिट कार्यातयः आसाकोंगेरिट कार्यातयः अस्ति। निपादि कार्यातयः अस्ति। निपादि कार्यात्यः कोटः 364007 जबस्थान, ज्ञालावाः स्वत्ता नंबर 2016, निर्मय सिंह सर्वर्गन, एवसीएमली बैंक के पान, ज्ञालावा, रावस्थान अस्ति। भीवा कार्यात्यः कोटः 364007 जबस्थान, ज्ञालावाः स्वत्ता नंबर 2016, निर्मय सिंह सर्वर्गन, एवसीएमली बैंक के पान, ज्ञालावाह, रावस्थान - 326007, भीववाहाः श्री सूर्वर्गन, एक्सरीयन-116, एक्सी मीवल, गायती आध्रम के पान, अवनेर रोह, भीववाह, रावस्थान - 31001, खसरा नंबर 2016, निर्मय सिंह सर्वर्गन, एक्सरीयन-116, एक्सी मीवल, गायती आध्रम के पान, अवनेर रोह, भीववाह, रावस्थान - 31001, खसरा नंबर 2016, निर्मय सिंह सर्वर्गन, एक्सरीयन 118, ज्ञालावाह, रावस्थान - 326001 पर सुबंक 100 जबे से आप 5.00 बजे के बीच किसी भी कर्मा दिवस पर उपलब्ध सीर्गी।

) अपल संपत्ति आर्यक्ष मुख्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। ) उपर्युक संपत्ति आर्योक ने खरीद के लिए जमा की गई बोलियों/निविदाओं के साथ ऊपर उल्लिखित परोहर गांधि संलग की जाएगी। ईएमझी ग्रीम दिल्ली में देव 'इडिया शेल्टर प्यवरंस कॉर्पोर्सन लिमिटेड' के पक्ष में होगी। नीलामी के ब सफल बोलीदाताओं को ईएमढी राशि वापस कर दी जाएगी।

अलरून बालावाजा का रूपका शाम वपान कर व ज्यापा। 4) उच्चन बोली लागो बाते को हमेशा सरूक बोलीवात भोषित किया व्यापा, बसरों कि वह बोली लगाने के लिए कानूनी रूप से गोय हो और बसरों की वीली की गिरी अरबित मूल्य से कप न हो। वब प्रसावित कीमत इतनी अपर प्रतीत हो कि ऐसा करने की स्लाह न दी जा सके तो उच्चयम बोली को अस्वीकारस्वीकार करना प्राधिकृत अधिकांप र होगा। ) संभावित बोलीदाता 15 नवस्बर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच पूर्व अनुभति लेकर संपित्र का निरीक्षण कर सकते हैं। ) सफल बोलीदाता के रूप में गोषित व्यक्ति, गोषणा के तुरंत बाद, ईएमडी रामि सहित खरीद रामिउज्यवस बोली की रामि का 25% 24 मंटे के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करेगा और इस तरह की जमा रामि में चूक क्षेत्र प

ंपित को तुरंत निजी सचि द्वारा नई मीलामीपिक्रमी के लिए रखा जाएगा। ) उपरोक्त के अनुसार प्रारंपिक जमा किए जाने की स्थिति में, देव केता थन की जोष यशि का भुगतान केता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की सिक्री की पृष्टि की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले सिवाय इसके कि ऐसे दिन या वां इमें दिन रिवयर या अन्य अवकाश हो, तो 15में दिन के बाद पहले करवालब दिवस पर किया जाएगा। २) ऊपर वर्षित अवधि के भीतर किसी भी भुगतान में यूक होने की स्थिति में, संपत्ति को निजी संधि द्वारा गई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। ईएमझे सहित जमा राशि इंडिया लेल्टर पहलेंस कॉर्पोरेंजन लिमिटेड हारा जब्त कर ली जाएगे

आर चुककता खरोदार का सर्पाय र कोट या नहीं होगा। 9 उपरोक्त किये आईस्सरम्पती के अशिन अनुभेदन के अधीन होगी, डब्कुक पर्दियों से अनुरोध हैं कि वे संबंधित विभागों कार्यालयों से वैधानिक और अन्य बकाया जैसे विक्री संपित कर, विबल्ती बकाया, और सोसाइटी का बकाया की पुष्टिपृष्टि करें। कंपनी सर्पार परिकारी में देव शिंक मुगावन को कोई विभोदती गढ़ी लेगी। 10) 1% का टीकीस्स, पदि कोई छो, उच्चतम बोली लगाने वाले हरा उच्चतम पोणिव बोली राशि के आशिरक देव होगा। भुगावा कंपनी के पैन में उच्चतम बोली लगाने वाले हरा जन्म किया जना है और चालान की प्रति कंपनी के पास जमा

11) वह कथा दल विकास कर तानवारत नामाय प्राप्त भ सामार नामा जात करने हेंद्र समें स्थान सुरूत, पंजीकरण सुरूत और अकस्मिक खरों को वहन करना होगा।
13) प्राप्तिक अधिकारी को बिना को अनुसार पंजीकृत किये प्रमाण राष्ट्र गत समें होता से स्थान के इस विका के किसी भी नियम और सर्वों को संशोधित करने का पूर्व अधिकार स्थान के इस विका के किसी भी नियम और सर्वों को संशोधित करने का पूर्व अधिकार स्थान के इस विका के किसी भी नियम और सर्वों को संशोधित करने का पूर्व अधिकार स्थान के इस विका के स्थान के इस विका के स्थान स्थान के इस विका के स्थान स्थान के इस विका स्थान स्थान के इस विका के स्थान स्थान के इस विका के स्थान स्यान स्थान स्य

कर्जदार/जमानतदार/बंधककर्ता को 30 दिनों की बिक्री सूचना

उपर्पुत्त कर्जहाराबंधकरूर्ताव्यमततवरों को थारा 13(2) के तहत मांग सुचना में उप्लिखित ग्रीम का भुगतान ब्याज और खर्च के साथ नीलापी की तारीख से पहले : की जाएगी और बकाया राहि, यदि कोई हो, आरसे ब्याज और लागत चहित यसूल की जाएगी । दिनांक: 14.10.2023, स्वान: राजस्थान प्राधिकृत अधिकारी, कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपोर्रेशन लिमि पंजी. कार्या.: 410-412, 18/12, चौथी मंजिल, डब्लू. ई.ए. आर्य समाज रोड़, करोल बाग, न्यू दिल्ली-110005 कार्पो. कार्या.: 716-717, 7वी मंजिल, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर,

CSL Finance Limted

सेक्टर 16, नोयडा 201301, उ.प्र. फोन ::+91 120 4290650/52/53/54/55, इ-मेल: info@cstfinance.in Legal@cstfinance.in., वेब : www.cstfinance.in, CIN: L74899DL1992PLC051462

## आधिपत्य सूचना अचल संपत्ति के हेतु (परिशिष्ट IV नियम 8(1)

अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **सीएसएल फाइनेंस लि**. (यहाँ आगे कंपनी के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी / सह—ऋणी / जमानतदार को मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी / सह—ऋणी / जमानतदार मांगी गई राशि को भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणीं / सह-ऋणीं / जमानतदार और सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नियमावली के नियम 8(1) के साथ पहित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर और माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुडगाँव द्वारा प्रदत्त इस अधिनियम की धारा 14 के तहत आदेश दिनांकित 19.09.2023 के अनुपालन में कंपनी की और से अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति पर भौतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी(यों)/सह—ऋणी(यों)/जमानतदार(यों) और सर्व साधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की सलाह दी जाती है और उक्त संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन उस पर भावी ब्याज के साथ यहाँ नीचे वर्णित अनुसार राशि के लिए कंपनी कंपनी के प्रथम प्रभार के तहत होगा।

<ul> <li>ऋण संख्याः \$MEGUR0000797</li> <li>1. श्री घमंडी लाल,</li> <li>2. श्री कृष्णन</li> <li>3. कुं रत्नी देवी (कर्जदार / प्रतिभृति प्रदाता)</li> <li>सभी का पताः मकान नं. 2, दरबारीपुर (162), बादशाहपुर, गुडगाँव, हरियाणा—122101 और मकान नं. 1356/27, मेन रोड दरबारीपुर, निकट</li> <li>श्रीत मंदिर गृडगाँव, हरियाणा—122103</li> <li>23.06.2023 और ए. 43,94,697/— (रुपये तैंतालीस लाख चौरानवे हजार छह सौ सत्तानवे मात्र) दि.</li> <li>22.06.2023 को इस पर प्रोदभूत आगे की ब्याज और अन्य प्रमारों सहित</li> </ul>	ऋणी/सह–ऋणी/	मांग सूचना दिनांक	आधिपत्य
	जमानतदार का नाम/ऋण क्रं.	एवं राशि	दिनांक
	<ol> <li>श्री घमंडी लाल,</li> <li>श्री कृष्णन</li> <li>खुं, रत्नी देवी (कर्जदार/सह-कर्जदार/प्रतिभृति प्रदाता) सभी का पताः मकान नं. 2, दरबारीपुर (162), बादशाहपुर, गुडगाँव, हरियाणा—122101 और मकान नं. 1356/27, मेन रोड दरबारीपुर, निकट</li> </ol>	रू. 43,94,697 /— (रुपये तैंतालीस लाख चौरानवे हजार छह सौ सत्तानवे मात्र) दि. 22.06.2023 को इस पर प्रोद्भृत आगे की ब्याज	भौतिक

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरणः दरबारीपुर (162) बादशाहपुर गुडगाँव, हरियाणा—122001 स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति एच.नं. 2 खेवत/खाता नं. 2/2 रेक्ट नं. 7 किल्ला नं. 21(2-4), 22(7 मारला) रेक्ट नं. 8 किल्ला नं. 6/2/1(0-4) 15/2(7-10), 16/1(7-4), रेक्ट नं. 14 किल्ला नं. 1(5-8), 2(8-0), 9/1(3-14) 10/1(5–8), किल्ला नं. 9 माप 46 कनाल 191 सीमाएँ:– दक्षिणः सत्तवीर का मकान उत्तरः राजपाल का मकान, पूर्वः रोड, पश्चिमः रोड

दिनांकः 13.10.2023 हस्ता/ – प्राधिकृत अधिकारी स्थानः गुडगाँव



CIN: L74999DL1994PLC061353

पंजी. कार्यालय : 1211, पद्मा टावर,—ा-5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 **फोन**: 91-11-25755920. फैक्स: 91-1125766775

ई—मेल: investor.services@educomp.com, वेबसाइट: www.educomp.com 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

तद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक ज़ीएम) मंगलवार, 7 नवम्बर, 2023 को पूर्वा. 11.30 बजे (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मोड (ओएवीएम) के माध्यम से) उक्त एजीएम के आयोजन की सूचना में विनिर्दिष्ट व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी

कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा सर्कुलर दिनांकित 08 अप्रैल, 2020 तथा व13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020. 13 जनवरी. 2021, 14 दिसम्बर 2021, 05 मई. 2022, सर्कुलर नंबर 10 / 2022 देनांकित 28 दिसम्बर, 2022 और 09 / 2023 दिनांकित 25 सितम्बर, 2023 के माध्यम र जारी जनरल सर्कूलर ('एमसीए सर्कूलर्स' के रूप में संदर्भित) तथा सेबी द्वारा जारी सर्कूलर मेबी / एचओ / सीएफंडी / सीएफंडी - पीओडी-2 / पीं / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांकित ७ अक्टूबर, २०२३ के साथ पठित सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी—२ / पी / सीआईआर 🖊 2023 / 4 दिनांकित 5 जनवरी, 2013, सेबी / एचओ / सीएफडी / नीएमडी2/सीआईआर /पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022, सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआरआईपी / 2021 / 11 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 तथा सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/ सीआईआर/ धी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 (सामूहिक रूप से 'सर्कुलर्स' के रूप में संदर्भित) के अनुसरण में, कम्पनियों को एजीएम/एजीएम का आयोजन, एक उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम वीसी/ओएवीएम के गाध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय एजीएम हेतु स्थल माना जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुर्देश एजीएम आयोजन की सूचना में वर्णित हैं ।

कम्पनी ई-मेल, जिसमें एजीएम की सूचना दी गई है, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ई-मेल द्वारा उन सदस्यों को 12 अक्टूबर, 2023 को भेज चुकी है, जिनकी ई-मेल आईडी'ज डिपॉजिटरीज अथवा कम्पनी के पास पंजीबद्ध हैं। एमसीए सर्कुलर्स के अनुरूप, एजीएम सूचना की भौतिक प्रतियां प्रेषित नहीं की जा रही हैं तथा एजीएम सूचना केवल ई-मेल द्वारा भेजी गई है।

सदस्यगण, जिनको सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसे कम्पनी की वेबसाइट www.edu.comp.com पर 'investors' सेक्शन से डाउनलोड कर सकते है अथवा उसकी . सॉफ्टकॉपी उपरोक्त ई-मेल आईडी पर कम्पनी सचिव को एक लिखित अनुरोध भेजकर अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। एजीएम की उपरोक्त सूचना नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट https://www.nseindia.com और बॉम्बे स्टोंक एक्सचेन्ज की वेबसाइट <u>https://www.bseindia.com</u> पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी की प्रतिभतियां सचीबद्ध हैं।

जिन शेयरधारकों की ई-मेल आईडी'ज पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अपनी ई-मेल आईडी'ज जिक्ति करने हेत् कम्पनी सं <u>investor.services@educomp.com</u> पर एनएसडीएल / सीडीएसएल से (डीमैटीरियलाइज्ड शेयर्स के मामले में) अथवा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') से (भौतिक शेयर्स के मामले में) swapann@linkintime.co.in पर सम्पर्क करने तथा सभी शेयरधारकों द्वारा हस्ताक्षारित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, पैन कार्ड तथा पता प्रमाण की स्व–सत्यापित प्रतियों सहित भेजने का अनरोध किया जाता है।

वीसी / ओवीएएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने संबंधी अनुदेश तथा रिमोट ई—वोटिंग मे प्रतिभागिता अथवा एजीएम में ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का ढंग एजीएम आयोजन की सूचना में दिया गया है। भौतिक रूप में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के धारक ऐसे शेयरधारकों. जिनके द्वारा अपना ई—मेल पता कम्पनी अथवा संबंधित डीपी के पास पंजीकत नहीं करवाया गया है. के लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स के संबंध में अनदेश भी सूचना में दिए गए हैं। वीसी / ओवीएएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के प्रयोजन हेत की जाएगी ।

भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपने भौतिक शेयर अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रूप में परिवर्तित करवाने और भौतिक शेयरों के साथ जुड़े सभी . जोखिम समाप्त करने पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कम्पनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, कम्पनीज (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा संशोधित, के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्वं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों और सामान्य बैठकों के विषय में सचिवीर मानकों ('एसएस-2') के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को एजीएम की सचना मे उल्लेखित व्यवसाय के संबंध में एजीएम के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। कम्पनी ने रिमोट —वोटिंग सूविधा प्रदान करने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाए अनुबंधित की हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 4 नवम्बर, 2023 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी तथा सोमवार, 6 नवम्बर, 2023 को साय 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी कम्पनी के वे सदस्य, जो विच्छेदन तिथि मंगलवार, 31 अक्टूबर, 2023 को भौतिक अथवा डिमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर धारक हैं, अपने वोट रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम में वोट डाल सकते हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकार विच्छेदन तिथि को कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। वह व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग की सुविधा पाने का हकदार होगा। वह व्यक्ति जो विच्छेदन तिथि को सदस्य नहीं है, इस सुँचना को जानकारी के निमित्त मात्र समझे। ई—वोटिंग / एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया एजीएम की सचना में दी गई है।

कोई व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि अर्थात मंगलवार, 31 अक्टूबर 2023 को शेयरधारक है, <u>swapann@linkintime.co.in</u> अथवा <u>investor.services@educomp.com</u> पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड

इसके अतिरिक्त, एजीएम में भी ई—वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम . में उपस्थित वे सदस्य, जिनके द्वारा रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वे सदस्य, जो रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट डाल चुके हैं, एजीएम में उपस्थित होने के हकदार होंगे, परंतु दोबारा वोट डालने के हकदार

मैसर्स योगेश सलूजा ऐंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज के सीएस योगेश सलूजा (सदस्यता सं. A21916; COP 22676) को वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इसकी अधिसचना दिनांकित 24 जनवरी 2022 के माध्यम से आदेश दिया है कि प्रतिभृतियों के अंतरण हेतू सभी अनुरोध, उनके ट्रांसिमशन एवं ट्रांसपोजीशन अनुरोधों सहित, केवल डिमैटीरियलाइज्ड रूप में प्रोसेस किए , जाएंगे। उसको ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयरों के साथ जुड़े सभी जोखिम समाप्त करने तथा डिमैटीरियलाइजेशन के विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए, सदस्यों को उनके द्वारा भौतिक रूप में धारित शेयर डिमैटीरियलाइज करवाने की सलाह दी जाती है सदस्यगण इस संबंध में कम्पनी से सम्पर्क कर सकते हैं।

किसी संदेह की स्थिति में सदस्यगण आरटीए से ई—मेल : swapann@linkintime.co.in पर अथवा फोन नंबर 022-4918 6000 पर अथवा कम्पनी investor.services@educomp.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

तिथि : 13 अक्टूबर, 2023

स्थान : नई दिल्ली

कृते एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन्स लिमिटेड हस्ता./-मनोज गर्ग

मुख्य वित्तीय अधिकारी